



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
 भाग-4, खण्ड (ख)  
 (परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 16 अक्टूबर, 2020

आश्विन 17, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

संख्या 1721/81-2-2020-4(14)-2020

लखनऊ, 16 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-282

भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है।

2-पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन राज्यपाल अग्रतर, डिप्टी कलेक्टर, झाँसी, जिला झाँसी को उक्त वन भूमि के सम्बन्ध में वन बन्दोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त करती हैं।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6	7
झाँसी	झाँसी	झाँसी	बदनपुर	593	0.429	उत्तर-गाटा संख्या 595, 592
				594	0.676	पूर्व-गाटा संख्या 599, 598
				596	0.920	दक्षिण-जिला ग्वालियर की सीमा मध्य प्रदेश
			योग	03 किता	2.025	पश्चिम-गाटा संख्या 569, 589

आज्ञा से,  
 सुधीर गर्ग,  
 प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1721/LXXXI-2-2020-4(14)-2020, dated October 16, 2020 :

No. 1721 /LXXXI-2-2020-4(14)-2020

*Dated Lucknow, October 16, 2020*

IN exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (Act no, 16 of 1927), the Governor is pleased to declare that it has been decided to constitute the land mentioned in the Schedule below as a reserved forest.

2. Under clause (c) of sub-section (1) of section 4 of the aforesaid Act, the Governor is further pleased to appoint the Deputy Collector, Jhansi, district Jhansi as the Forest Settlement Officer with respect to the said forest land.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Gata No.	Area (In Hac.)	Boundary Description
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Jhansi	Jhansi	Badanpur	593	0.429	North - Gata no. 595, 592
				594	0.676	East - Gata no. 599, 598
				596	0.920	South - Boundary of Gwalior district, Madhya Pradesh
			Total	03 Kita	2.025	West - Gata no. 569, 589

By order,  
SUDHIR GARG,  
*Pramukh Sachiv.*